



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 अग्रहायण 1938 (श०)
(सं० पटना 1042) पटना, शुक्रवार, 9 दिसम्बर 2016

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

29 नवम्बर 2016

सं० वि०सं०वि०-28/2016-5904/वि०सं०।—“बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक, 2016”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

राम श्रेष्ठ राय,

सचिव, बिहार विधान-सभा।

बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक, 2016

[वि०स०वि०-22/2016]

बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) अधिनियम, 1990 (बिहार अधिनियम 16, 1990) को निरसित करने के लिए विधेयक।

भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

(3) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

2. निरसन एवं व्यावृत्ति।—(1) बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) अधिनियम, 1990 (बिहार अधिनियम 16, 1990) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किये गये कुछ भी या की गयी किसी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार वित्त सेवा की मूल कोटि की कुल रिक्ति का 25% (पच्चीस प्रतिशत) राज्य सरकार के वर्ग-3 के सरकारी सेवकों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। इन रिक्तियों को भरे जाने हेतु बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) अधिनियम, 1990 लागू है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 511 दिनांक 22.02.11 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों के नये वर्गीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगति को दूर करने तथा बिहार वित्त सेवा संवर्ग की गुणवत्ता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक, 2016 को अधिनियमित करने की आवश्यकता है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार-साधक सदस्य।

पटना
दिनांक 29.11.2016

सचिव,
बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1042-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>